

नए छात्र वीज़ा के लिए आवेदन करना

COVID-19 के कारण वीज़ा प्रसंस्करण के कुछ समयों पर प्रभाव पड़ा है और आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने में अधिक समय लग सकता है।

हम विद्यार्थियों को घरेलू मामले विभाग (Department of Home Affairs) के पास संपूर्ण छात्र वीज़ा आवेदन भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आवश्यकताओं की जाँच करने के लिए छात्र <u>दस्तावेज जाँचसूची उपकरण</u> का उपयोग कर सकते हैं।

संपूर्ण आवेदन को तेजी से संसाधित किया जा सकेगा।

और अधिक जानकारी के लिए वीज़ा प्रसंस्करण समय देखें।

छात्र वीज़ा शुल्कमाफी

यदि आपके पास 1 फरवरी 2020 के दिन या उसके बाद छात्र वीज़ा था और आप COVID-19 के प्रभावों के कारण मूल वीज़ा की वैधता अविध के अंदर अपना कोर्स पूरा करने में असमर्थ थे/थीं, तो हम वीज़ा आवेदन शुल्क में माफी देंगे ताकि आप एक और छात्र वीज़ा आवेदन जमा कर सकें। इसमें ये परिस्थितियां शामिल हैं, यदि:

- आपने यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में असमर्थ होने के फलस्वरूप अपने अध्ययन को स्थिगत कर दिया है
- आप पढ़ाई को पार्ट टाइम तौर पर करने के लिए बाध्य हो गए थे/थीं
- आप अपने कार्य-आधारित प्रशिक्षण या प्लेसमेंट को पूरा करने में असमर्थ थे/थीं।

यह उपाय उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो सामान्य कारणों से नए छात्र वीज़ा का आवेदन कर रहे हैं (जिसमें ये परिस्थितियां भी शामिल हैं जबकि आप किसी कोर्स या अध्ययन इकाई में असफल रहे/रही हैं, आपने व्यक्तिगत कारणों से स्थगन किया गया है या आपने स्वेच्छा से अपने अध्ययन के भार को कम किया है।)

आपको छात्र वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा, ताकि आपके शुल्कमाफी के आवेदन पर विचार किया जा सके और अपने शिक्षा प्रदाता की ओर से पूरा भरा गया Form 1545 COVID-19 Impacted Student (PDF 228 KB) संलग्न करना होगा।

यदि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुल्कमाफी का आवेदन कर रहे/रही हैं, तो स्वतः रूप से ब्रिजिंग वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले शुल्कमाफी की जांच करनी होगी।

यह शुल्कमाफी केवल वीज़ा आवेदन शुल्क के लिए ही लागू है।

इसके अलावा, जो छात्र वीज़ा धारक ऑस्ट्रेलिया के बाहर हैं और 19 जनवरी 2022 से लेकर 19 मार्च 2022 के बीच यात्रा करते हैं, वे अपने वीज़ा आवेदन शुल्क (Visa Application Charge) की वापसी के लिए पात्र होंगे। वीएसी (VAC) रिफंड का आवेदन करने के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी वेबपेज रिफंड प्राप्त करना पर उपलब्ध है।

प्रपत्र 1545 COVID-19

शिक्षा प्रदाताओं को इस बात के लिए संतुष्ट होने की आवश्यकता होगी कि आपके पास 1 फरवरी 2020 के दिन या उसके बाद छात्र वीज़ा था और आप COVID-19 के प्रभावों के कारण मूल वीज़ा की वैधता अविध के अंदर अपना कोर्स पूरा करने में असमर्थ थे/थीं।

आप अपने पूरे भरे गए फॉर्म के साथ COVID-19 से संबंधित प्रभावों के विषय में और अधिक प्रमाण जमा कर सकते/सकती हैं।

अंग्रेज़ी परीक्षाएँ, बायोमेट्रिक्स और स्वास्थ्य जैसी अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुकूलनीय समय-सीमाएँ

यदि आप COVID-19 के कारण अंग्रेज़ी भाषा परीक्षा देने में असमर्थ रहे थे/थीं, तो हम आपको परिणाम उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय देते हैं। यदि COVID-19 के कारण सेवाओं की सुलभता बाधित हुई है, तो बायोमेट्रिक्स संग्रह और स्वास्थ्य जांच के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।

यदि आपने भविष्य में 28 दिनों से अधिक समय बाद इनमें से किसी सेवा के लिए एपॉइंटमेंट लिया है, तो आप अपने ImmiAccount में अपनी बुकिंग की पृष्टि संलग्न कर सकते/सकती हैं। यदि आपको अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, तो कृपया विभाग को सूचित करने के लिए ImmiAccount के माध्यम से जानकारी के निवेदनों के उत्तर में बताएँ कि आपको इसकी आवश्यकता है।

वर्तमान वीज़ा धारक

कोविड-19 के कारण आरंभ तिथियों के लिए अनुकूलनीय व्यवस्थाएँ

विभाग यह समझता है कि कुछ विद्यार्थी कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण समय पर अपने अध्ययन का कोर्स आरंभ नहीं कर पाएंगे। यह सुनिश्चित करें कि आपके शिक्षा प्रदाता को पता रहे कि आप कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण अपनी पढ़ाई आरंभ नहीं कर सकते/सकती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए विकल्प उपलब्ध हैं कि आप अपने वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन नहीं कर रहे/रही हैं। आपका शिक्षा प्रदाता आपको इस बारे में बता सकता है कि आपकी परिस्थिति के आधार पर आपके लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं।

यदि आपके पास छात्र वीज़ा है और आप कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण यात्रा नहीं कर सकते/सकती हैं, तो अपने शिक्षा प्रदाता से संपर्क करें। हर समय अध्ययन के लिए अनुमोदित कोर्स में नामांकित रहना सुनिश्चित करें।

इस बात का ध्यान रखें कि हम आपका वीज़ा रद्द कर सकते हैं, यदि आप:

- समय पर पढाई आरंभ नहीं करते/करती हैं, या
- आपके पास वर्तमान या सक्रिय Confirmation of Enrolment (CoE) नहीं है।

ऐसा न हो सके, इसके लिए आपका शिक्षा प्रदाता आपकी मदद करेगा।

यदि आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर हैं और आपने सक्रिय या वर्तमान CoE की व्यवस्था नहीं की है, तो (VEVO में) अपनी वीज़ा पदस्थिति की जांच करें। कोई भी यात्रा योजना बनाने से पहले ऐसा करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी वीज़ा की पदस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

यह वेबपेज भी देखें - आपके अध्ययन की परिस्थिति बदल गई है।

छात्र वीज़ा की शर्तें

COVID-19 प्रतिबंधों के कारण छात्र वीज़ा शर्तें पूरी न कर पाने की स्थिति में हम एक अनुकूलनीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं। आप अपने छात्र वीज़ा की शर्तों के उल्लंघन में नहीं होंगे/होंगी, यदि:

- आपके पास एक अनुमोदित पाठ्यक्रम स्थगन है
- आप ऑनलाइन अध्ययन कर रहे/रही हैं।

कार्यबल में वर्तमान कमी के कारण सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में से छात्र वीज़ा धारकों के काम करने के घंटों की सीमा को अस्थायी रूप से हटा रही है, वेबपेज विद्यार्थियों और वर्किंग हॉलिडे मेकर्स के लिए वीज़ा की कार्य स्थितियों में अस्थायी परिवर्तन देखें। यह वर्तमान में सभी विद्यार्थियों और नए आने वाले उन विद्यार्थियों के लिए एक अस्थायी उपाय है, जो कोर्स आरंभ करने से पहले काम ढूंढना चाहते हैं और काम शुरू करना चाहते हैं। इसकी समीक्षा अप्रैल 2022 में की जाएगी। इसमें द्वितीयक आवेदक भी शामिल हैं।

और अधिक जानकारी के लिए छात्र वीज़ाधारकों के लिए कार्य के घंटों में अस्थाई अपवाद देखें।

विद्यार्थियों के लिए वीज़ा आवेदन शुल्क (Visa Application Charge) रिफंड

कोविड-19 के कारण कार्यबल में वर्तमान कमी को दूर करने में सहायता के उद्देश्य से सरकार छात्र वीज़ा धारकों को यथाशीघ्र ऑस्ट्रेलिया वापिस आने के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

वर्तमान में ऑफशोर स्थित जो छात्र वीज़ा धारक 19 जनवरी 2022 से लेकर 19 मार्च 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करते हैं, वे अपने वीज़ा आवेदन शुल्क के रिफंड के लिए पात्र होंगे। आप 31 दिसंबर 2022 तक रिफंड के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे/होंगी। वीएसी (VAC) रिफंड का आवेदन करने के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी वेबपेज रिफंड प्राप्त करना पर उपलब्ध है।

हमें सूचित कब करें

अगर आप घर वापिस चले जाते/जाती हैं या आपके अध्ययन की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो आपको इसके बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका वीज़ा तब तक मान्य रहता है, जब तक आप एक अन्य वीज़ा के लिए आवेदन जमा नहीं करते/करती हैं, या आपके वीज़ा की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। यदि आप अपने गृहदेश वापिस चले जाते/चली जाती हैं या यदि आप अपना अध्ययन स्थिति कर देते/देती हैं, तो आपके वीज़ा की पदस्थिति नहीं बदलेगी।

शिक्षा प्रदाता एक नई नामांकन की पुष्टि [Confirmation of Enrolment (CoE)] जारी कर सकते हैं और विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन करने के लिए भर्ती कर सकते हैं। यदि आपके पास एक वैध छात्र वीज़ा है, तो आपका शिक्षा प्रदाता हमें आपके नए नामांकन की पुष्टि (CoE) प्रदान करेगा।

यदि आपके पास एक खुला छात्र वीज़ा आवेदन है, तो आप अपने नए नामांकन की पुष्टि (CoE) को ImmiAccount के माध्यम से अपने आवेदन में संलग्न कर सकते/सकती हैं।

और अधिक जानकारी

अनेकों सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए सूचना उपलब्ध है, जिनमें शामिल हैं:

- नवीनतम समाचार, अपडेटों और सलाह के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की COVID-19 वेबसाइट।
- शिक्षा, कुशलताएँ और रोजगार विभाग [Department of Education, Skills and Employment]और ईमेल international.students@dese.gov.au
- विदेशी छात्र स्वास्थ्य कवर [Overseas Student Health Cover] के लिए <u>स्वास्थ्य विभाग</u> [Department of Health]
- COVID-19 से संबंधित शिकायतों के लिए <u>अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी लोकपाल [nternational Student</u> Ombudsman]
- जानकारी और समर्थन सेवाओं के लिए <u>अध्ययन ऑस्ट्रेलिया [Study Australia]</u>।